

(Group-I)

(Accounting)

Paper : First

**CORPORATE ACCOUNTING**

नोट : सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न करना अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। onlineBU.com

Note: Attempt all the five questions. One question from each Unit compulsory. All questions carry equal marks.

**इकाई-I/Unit-I**

1. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए—

- (i) न्यूनतम अभिदान (ii) प्रार्थित पूँजी  
(iii) संचित पूँजी

onlineBU.com

PTO

Write short notes on the following :

- (i) Minimum subscription (ii) Subscribed capital  
(iii) Reserved capital

अथवा/Or onlineBU.com

अशोक लिमिटेड ने अपने ₹ 1,10,000 के ऋणपत्रधारियों को यह अधिकार दिया कि उन्हें समता अंशों में परिवर्तित कर लें। आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टियाँ दीजिए यदि—

- (i) ऋणपत्रों को ₹ 100 वाले समता अंशों में सममूल्य पर पारवातित किया गया था।  
(ii) ऋणपत्रों को ₹ 100 वाले समता अंशों में 10% प्रीमियम पर परिवर्तित किया गया था।  
(iii) ऋणपत्रों को ₹ 100 वाले समता अंशों में 10% छूट पर परिवर्तित किया गया था।

Ashok Ltd. authorised its ₹ 1,10,000 debentures to convert them into equity shares, Pass the necessary journal entries if :

- (i) Debentures were converted into equity shares of ₹ 100 each at per.  
(ii) Debentures were converted into equity shares of ₹ 100 each at a premium of 10%.  
(iii) Debentures were converted into equity shares of ₹ 100 each at a discount of 10%.

**इकाई-II/Unit-II**

कम्पनी अधिनियम, 1956 की नवीन (संशोधित) अनुसूची VI के अनुसार एक कम्पनी के चिट्ठे का नमूना दीजिए तथा प्रत्येक मुख्य शीर्षक की संक्षेप में व्याख्या कीजिए।

Give a specimen form of balance sheet of a company according to new (revised) Schedule VI Companies Act, 1956.

अथवा/Or onlineBU.com

X लिमिटेड की पूँजी निम्न प्रकार थी—

- (a) 3000 A समता अंश जिनमें प्रत्येक अंश ₹ 100 का था और जिस पर ₹ 85 प्रति अंश चुकता थे।  
(b) 1000 B समता अंश जिनमें प्रत्येक ₹ 100 का था जिस प्रकार ₹ 80 प्रति अंश चुकता थे।  
(c) ₹ 100 वाले 1000 पूर्वाधिकार अंश जो पूर्णदत्त थे। (ये अंश कम्पनी के पार्षद अंतर्नियम के अन्तर्गत पूँजी पर पूर्वाधिकार रखते हैं।)

विविध लेनदार ₹ 76,500 के थे इनमें ₹ 2,500 निस्तारक का पारिश्रमिक शामिल था। निस्तार ने B समता अंशों पर प्रति अंश ₹ 20 जो शेष से याचना की जिसका पूर्णरूप से भुगतान कर दिया गया। सम्पत्तियों पर ₹ 1,91,000 प्राप्त हुए। ₹ 15 प्रति अंश की याचना अंशतः चुकता A समता अंशों पर की गई। 100 अंशों के अतिरिक्त सबका भुगतान प्राप्त हो गया। निस्तारक का अंतिम विवरण तैयार बनाइये। **onlineBU.com**

The Capital of X Ltd. was as follows :

- (a) 3000 A equity shares of ₹ 100 each, ₹ 85 per share paid-up.
- (b) 1000 B equity shares of ₹ 100 each ₹ 80 per share paid-up.
- (c) 1000 preference shares of ₹ 100 each fully paid (these shares under the articles of association have preference as to capital).

The various creditors amounted to ₹ 76,500 including the liquidator remuneration of ₹ 2,500. The liquidator made a call of the remaining ₹ 2 per share on the B equity shares which was paid in full. Assets realized ₹ 1,91,000.

A call of ₹ 15 per share on partly-paid A equity share was made. This was paid in full with the exception of 100 shares. Prepare liquidators final statement of account.

#### इकाई-III/Unit-III

3. अंशों के मूल्यांकन की आवश्यकता एवं मूल्यांकन की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए।

Describe the requirement and method of valuation of Shares.

अथवा/Or

निम्नांकित सूचनाएँ दी हुई हैं— **onlineBU.com**

- (a) औसत विनियोजित पूँजी ₹ 1,00,000। (b) 10% से पाँच वर्ष के लिए एक इकाई की वार्षिकी का वर्तमान मूल्य ₹ 3.78 है। (c) लाभ की सामान्य आय 10% है। (d) पाँच वर्षों के लाभ हैं :

प्रथम वर्ष ₹ 15,000, द्वितीय वर्ष ₹ 16,000, तृतीय वर्ष ₹ 17,000, चतुर्थ वर्ष ₹ 18,000 और पंचम वर्ष ₹ 20,000 **onlineBU.com**

लाभों में औसतन ₹ 1,500 के अनावर्तक लाभ शामिल हैं जिसमें से ₹ 300 के बार-बार लेने की संभावना है। व्यवसाय के स्थायी का पारिश्रमिक ₹ 800 प्रतिवर्ष है जिसका वे लाभ-हानि खाते में नहीं किया गया है। स्थायिक निष्कालिप्त—(अ) अधिलाभ के पाँच वर्ष के क्रय के अनुसार। (ब) वार्षिकी प्रणाली से (स) पूँजीकरण प्रणाली से।

The following information is given : **onlineBU.com**

- (a) Average capital employed ₹ 1,00,000. (b) Present value of the annuity of ₹ 1 for 5 years at 10% is ₹ 3.78. (c) Normal rate of profit is 10%. (d) Net profits for five years are :

I year ₹ 15,000, II year ₹ 16,000, III year ₹ 17,000, IV year ₹ 18,000 and V year ₹ 20,000

Profit included non-recurring profit on an average basis of ₹ 1,500. Out of which ₹ 300 had the recurring tendency. Remuneration of proprietor is ₹ 800 p.a. which is not charged in Profit & Loss A/c. find out goodwill

- (i) as per 5 years purchase of super profit. (ii) as per annuity method (iii) as per capitalisation of profit method.

**onlineBU.com इकाई-IV/Unit-IV**

4. एकीकरण की लेखांकन विधियों का वर्णन कीजिए।

Discuss the accounting methods of Amalgamation.

अथवा/Or

जेड लि. की अंश पूँजी में निम्नलिखित शामिल थे—

- (i) ₹ 10,000, 6% पूर्वाधिकार अंश ₹ 100 वाले और
- (ii) ₹ 50,000 समता अंश ₹ 10 वाले।

अंश पूर्णतः चुकता थे। वर्ष के अंत तक ₹ 20,000 के प्रारंभिक व्ययों के अतिरिक्त उसकी संचित हानियाँ ₹ 3,50,000 की हो चुकी थी। यह भी निश्चय किया गया कि पुस्तकों में दिखायी गयी ₹ 14,00,000 की स्थायी सम्पत्तियाँ ₹ 4,00,000 से अधिक मूल्यांकित थीं। **onlineBU.com**

अधिमूल्यांकन को समाप्त करने तथा हानियों व प्रारंभिक व्ययों को अपलिखित करने के उद्देश्य से पूँजी कटौती की एक योजना अयनायी गई और कॉर्ट द्वारा अनुमोदित की गई। इस योजना के अन्तर्गत, 6% पूर्वाधिकार अंशों को ₹ 60 वाले 7% पूर्वाधिकार अंशों में तथा समता अंशों को ₹ 2 वाले समता अंशों में बदलना है। पूर्वाधिकार अंशों पर तीन वर्षों के बकाया लाभांश को भी रद्द करना है।

योजना के लागू करने पर की जाने वाली जर्नल प्रविष्टियाँ कीजिए।

The shares capital of Z Ltd. consisted of the following :

- (a) ₹ 10,000, 6% preference shares of ₹ 100 each and
- (b) ₹ 50,000 equity shares of ₹ 10 each.

The shares were fully paid. By the end of the year, it had accumulated losses to the extent of ₹ 3,50,000 besides preliminary expenses totalling

₹ 20,000. It was also ascertained that the fixed assets which stood in the books at ₹ 14,00,000 were over-valued to the extent of ₹ 4,00,000. A scheme of capital reduction was adopted and approved by the Court in order to remove the over-valuation and to write off the losses and preliminary expenses. Under the scheme 6% preference shares were to be converted into 7% preference shares of ₹ 60 each and equity shares were to be converted into shares of ₹ 2 each. Also the dividends on preference shares which were in arrears for three years were to be cancelled. State the journal entries to be passed on the implementation of the scheme.

इकाई-V/Unit-V [onlineBU.com](http://www.onlineBU.com)

5. सूत्रधारी कम्पनी की परिभाषा दीजिए। किन परिस्थितियों में एक कम्पनी दूसरी कम्पनी की सहायक हो सकती है ?

Define holding company under what circumstances can a company become subsidiary to another company ?

अथवा/Or

बैंकिंग कम्पनी के चिट्ठे में दर्शायी जाने वाली विभिन्न सूचियों को क्रमानुसार लिखिए।

Write down the various schedules of balance sheet of banking company in order.

[onlineBU.com](http://www.onlineBU.com)